



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265]  
No. 265]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 27, 2006/अग्रहायण 6, 1928  
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 27, 2006/AGRAHAYANA 6, 1928

वस्त्र मंत्रालय  
हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय  
संकल्प

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2006

सं. 1/55/2000-डीसीएच/समन्वय.—भारत सरकार के संकल्प संख्या 1/55/2000-डीसीएच/समन्वय/एआईएचबी, दिनांक 28 अगस्त, 2006, 18 अक्टूबर, 2006, 30 अक्टूबर, 2006 एवं 14 नवम्बर, 2006 में आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को भी अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड में गैर-सरकारी सदस्य के रूप में तत्काल प्रभाव से नामित किया गया है :—

1. श्री जैनेन्द्र कुमार पाठक,  
6ए, साफी मंजिल, 82-ऑफ, टर्नर रोड,  
पाटकर ब्लॉक के पीछे,  
बांद्रा वेस्ट,  
मुम्बई-400050
2. श्री अजय कुमार गुप्ता,  
पुत्र श्री बैजनाथ गुप्ता,  
9, रविन्द्र गार्डन,  
सैक्टर ई, अलीगंज,  
लखनऊ-(उत्तर प्रदेश)

उपरोक्त नए नियुक्त बोर्ड के सदस्य हथकरघा क्षेत्र में समग्र विकास कार्यक्रम के सृजन में सरकार को सलाह देंगे। उपरोक्त सदस्य की पदावधि बोर्ड की समयावधि के साथ-साथ अर्थात् 28 अगस्त, 2006 से दो वर्ष की होगी।

इसे माननीय वस्त्र मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

बी. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव एवं  
विकास आयुक्त (हथकरघा)

MINISTRY OF TEXTILES  
OFFICE OF THE DEVELOPMENT  
COMMISSIONER FOR HANDLOOMS  
RESOLUTION

New Delhi, the 22nd November, 2006

No. 1/55/2000-DCH/Coordn.—In partial modification of Government of India's Resolution No. 1/55/2000-DCH/Coordn/AIHB, dated 28th August, 2006, 18th October, 2006, 30th October, 2006 and 14th November, 2006, the following persons have also been appointed as non-official member of the All India Handloom Board, with immediate effect :—

1. Shri Jainendra Kumar Pathak,  
6A, Safi Manzil, 82 Off. Turner Road,  
behind Patkar Block,  
Bandra (West), Mumbai-400050.
2. Shri Ajay Kumar Gupta,  
S/o Shri Baijanath Gupta,  
9, Ravindra Garden, Sector-E,  
Aliganj,  
Lucknow (Uttar Pradesh).

The above newly appointed members of the Board would advise the Government in the formulation of overall development programme in the Handloom Sector. The term of office of the above member will be concurrent with the term of the Board i.e. a period of two years from 28th August, 2006.

This issues with the approval of the Hon'ble Minister of Textiles.

B. K. SINHA, Jt. Secy. and  
Development Commissioner (Handlooms)